



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 भाद्र 1938 (श0)
(सं० पटना 711) पटना, शुक्रवार, 2 सितम्बर 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

2 सितम्बर 2016

सं० एल०जी०-01-21/2016/182-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 01 सितम्बर 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016

[बिहार अधिनियम 16, 2016]

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 11, 2007 की धारा-13 का संशोधन।—उक्त अधिनियम, 2007 की धारा-13 का परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“परन्तु इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के अंतर्विष्ट होते भी, जब तक वर्ष 2021 की जनगणना के प्रासंगिक आँकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक राज्य सरकार के लिए, 2011 जनगणना पर विनिश्चित नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर वार्डों की संख्या पुनः अवधारित करना, आवश्यक नहीं होगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

2 सितम्बर 2016

सं० एल०जी०-01-21/2016/183-लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 1 सितम्बर 2016 को अनुमत **बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के सचिव।

The Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016

[Bihar Act 16, 2016]

AN

ACT

To amend the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act 11, 2007)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty seventh year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Municipal (Amendment) Act, 2016.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar .

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment of section-13 of the Bihar Act 11, 2007.—Proviso to Section-13 of the said Act, 2007 shall be substituted by the following:-

“Provided that notwithstanding any thing contained in any other provision of this Act, until the relevant figures for the census of the year 2021 are published, it shall not be necessary for the State Government to re-determine the number of wards on the basis of population of the municipal area ascertained at 2011 Census.”

By Order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 711-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>